



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 of The Patents Rules)

क्रमांक : 044143076
SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 401967
आवेदन सं. / Application No. : 202041025228
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 16/06/2020
पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT
MADRAS)
आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.PARASURAMAN SWAMINATHAN 2.DEBDUTTA RAY
3.NITHEESH MUKUNDAN NAIR

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित A CONDUCTING ELECTROCHROMIC COMPOSITE OF METALLIC NANOWIRES AND MULTI-COLOURED THERMOCHROMIC MATERIALS नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख जून 2020 के सोलहवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled A CONDUCTING ELECTROCHROMIC COMPOSITE OF METALLIC NANOWIRES AND MULTI-COLOURED THERMOCHROMIC MATERIALS as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 16th day of June 2020 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 25/07/2022
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, जून 2022 के सोलहवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 16th day of June 2022 and on the same day in every year thereafter.